



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]
No. 5]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 1983/पौष 24, 1904
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 1983/PAUSA 24, 1904

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

आधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1983

आ० अ० 8(अ) —लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई और भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 3 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा सन्तुष्ट ससदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त सदन के लिए सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा की थी,

और निर्वाचन आयोग ने, उक्त अधिनियम की धारा 30 के अनुसरण में तारीख 13 दिसम्बर, 1979 को अध्यायिता वापस लेने के लिए अंतिम तारीख के रूप में नियत किया था,

और मेघालय राज्य में 1-शिल्लोंग ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन में सभी विधिमानीयता नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों ने उक्त तारीख तक अपनी अभ्ययिता वापस ले ली थी,

और इस प्रकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र उपर्युक्त निर्वाचन में लोक सभा के लिए कोई सदस्य निर्वाचित करने में असमर्थ रहा है और उक्त अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत गठित उन सदन में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र को आयुक्ति स्थान रिक्त रह गया था

अतः, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में और उसे इस निमित्त समर्थ

1199 GI/82

बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करके हुए, उक्त अधिनियम और उसके प्रवीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से यह आदेश करता है कि वह उक्त रिक्ति को भरने के लिए तारीख 28 फरवरी, 1983 से पूर्व एक व्यक्ति का निर्वाचन करे।

[सं० 464/मेघालय-लौ०/83 (1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th January, 1983

O.N. 8(E).—Whereas, for the purpose of holding a general election to the House of the People, the President had, by notification issued under sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in an Extraordinary issue of the Gazette of India dated 3rd December, 1979, called upon all the parliamentary constituencies to elect members to the said House;

And whereas, the Election Commission in pursuance of section 30 of the said Act, appointed the 13th December, 1979 as the last date for the withdrawal of candidatures;

And whereas, all the validly nominated candidates from 1-Shillong parliamentary constituency in the State of Meghalaya at the said election withdrew their candidature by the said date;

And whereas, the said constituency thus failed to elect a member to the House of the People at the aforesaid election

(1)

and the seat allotted to the said constituency remained vacant in that House constituted under section 73 of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of section 53 of the said Act and in exercise of all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before the 28th February, 1983, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 464/MEG-HP/83(1)]

आ० अ० 9 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, अपनी तारीख 14 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० 464/मेघालय लो० सं०/83 (1) के अनुसरण में मेघालय राज्य में 1-शिलांग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :-

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 21 जनवरी, 1983 (शुक्रवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 22 जनवरी, 1983 (शनिवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 24 जनवरी, 1983 (सोमवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा 17 फरवरी, 1983 (बुधवार)
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 28 फरवरी, 1983 (सोमवार)

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 464/मेघालय-लो० सं०/83 (1)]

O.N. 9(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints with respect to the election to the House of the People from 1-Shillong Parliamentary constituency in

the State of Meghalaya to be held in pursuance of its notification No. 464/MEG-HP/83(1) dated 14th January, 1983—

- (a) the 21st January, 1983 (Friday) as the last date for making nominations;
- (b) the 22nd January, 1983 (Saturday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 24th January, 1983 (Monday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 17th February, 1983 (Thursday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 28th February, 1983 (Monday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 464/MEG-HP/83(2)]

आ० अ० 10 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, अपनी तारीख 14 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं० 464/मेघालय लो० सं०/83(1) के अनुसरण में 1-शिलांग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7-30 बजे पूर्वानुमान में 3-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा।

[सं० 464/मेघालय-लो० सं०/83(3)]

आदेश से,

के० गणेशन, सचिव

O.N. 10(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 a.m. to 3.30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 1-Shillong Parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 464/MEG-HP/83(1) dated the 14th January, 1983.

[No. 464/MEG-HP/83(3)]

By Order,

K. GANESAN, Secy